



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1932 (श0)  
(सं0 पटना 651) पटना, सोमवार, 6 सितम्बर 2010

मुख्य अभियन्ता (द0) का कार्यालय  
नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शेखपुरा, पटना-14

कार्यालय-आदेश

30 अप्रैल 2010

आदेश सं0- ल0ज0सं0 /न0प्र0 (द0) अनु0 516—लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1661, दिनांक 02 अप्रैल 2007 में निहित आदेश एवं जिला अनुकम्पा समिति पटना की अनुशंसा के आलोक में स्व0 रामानन्द झा, नलकूप चालक, नलकूप प्रमण्डल, पटना (पश्चिम), बिहटा के आश्रित पुत्र श्री मुकेश कुमार को नलकूप प्रमंडल, नवादा के लिपिक के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 3050-75-3950-80-4590 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

2. श्री मुकेश कुमार पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नवनियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र / आय प्रमाण पत्र / विवाह में तिलक-दहेज का लेन-देन नहीं करने/न्यायालय में सजायाफ्ता नहीं होने/न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लंबित नहीं रहने तथा मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करने संबंधी अग्रतम शपथ-पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमंडल, नवादा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता स्वयं करेंगे तथा इसे सही पाए जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 13293, दिनांक 05 अक्टूबर 1991 के कंडिका-1 “ख” के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जाएगा।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 13293, दिनांक 05 अक्टूबर 1991 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्ति किए जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में

किसी प्रकार की त्रुटि पायी जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार को योगदान के समय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा-पत्र भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे।

6. तिलक-दहेज लेन-देन संबंधी एक घोषण-पत्र भी नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है, तो उसे अग्रणीत कर लिया जाएगा।

8. योगदान करने हेतु यात्रा करने पर कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

9. वित्त विभाग के संकल्प सं० 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना सम्बन्धी प्रावधान लागू होगा।

आदेश से,  
एस० के० ठाकुर,  
मुख्य अभियन्ता (द०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>